



राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि०, जयपुर

5 वीं व 6ठीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर

Phone : 0141-2741805, E-mail : rschfjaipur@yahoo.com

क्रमांक- 4203-5104/22

दिनांक- 13-6-2022

अध्यक्ष/प्रशासक

.....गृह निर्माण/
समस्त सदस्य
ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,/पंचायत समिति

ग्राम पोस्ट.....तह.....

जिला.....(राज.)

वार्षिक साधारण सभा की सूचना

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आवासन संघ की वर्ष 2021-22 की वार्षिक साधारण सभा का अधिवेशन दिनांक 30.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे जूम ऐप (Zoom App) पर वरचुअल रूप से आयोजित किया जाना है, जिसका लिंक पृथक से जिला यूनिट अधिकारियों (उप रजिस्ट्रार) से प्राप्त आपके मोबाईल नम्बर पर भिजवा दिया जावेगा। कृपया जूम ऐप (Zoom App) आपके मोबाईल नम्बर पर डाउनलोड करने का श्रम करें तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर सभा में उपस्थित होने का कष्ट करें।

उक्त बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जावेगा :-

1. गत आमसभा दिनांक 28.09.2021 की कार्यवाही की पुष्टि।
2. वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखों की पुष्टि।
3. वर्ष 2021-22 के वार्षिक अंकेक्षण की आक्षेप पूर्ति का अवलोकन एवं अनुमोदन।
4. वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना का अनुमोदन।
5. वर्ष 2022-23 के बजट का अवलोकन एवं अनुमोदन।
6. गत वर्षों 2021-22 के खर्चों की पुष्टि।
7. अन्य विषय- अध्यक्ष/ प्रशासक महो. की अनुमति से।


कोरम के अभाव में स्थगित सभा नियमानुसार आयोजित की जावेगी, जो उसी दिन दोपहर 12:00 बजे जूम ऐप (Zoom App) पर होगी। स्थगित सभा में विचारणीय विषय पूर्वानुसार ही रहेंगे।

माननीय सदस्य किसी बिन्दु विशेष की जानकारी/चर्चा चाहते हैं तो संघ कार्यालय में उसकी सूचना आम सभा तिथि से 72 घण्टे पहले देने का कष्ट करें।

आमसभा से संबंधित समस्त विवरण मय गत आमसभा दिनांक 28.09.2021 का कार्यवाही विवरण, वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे, वार्षिक अंकेक्षक आक्षेप पूर्ति, खर्च तथा वर्ष 2022-23 के बजट एवं कार्य योजना आदि पीडीएफ फाईल में आपके मोबाईल पर भिजवाई जा रही है। उक्त समस्त विवरण संघ की वेबसाईट www.rschf.com पर भी उपलब्ध है।

कृपया जूम ऐप (Zoom App) पर वरचुअल मीटिंग में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। जूम ऐप (Zoom App) का लिंक आपके मोबाईल पर पृथक से यथासमय भिजवा दिया जावेगा।

नोट- कृपया आपके इंटरनेट वाले मोबाईल नम्बर की सूचना आपके स्तर से श्री संघ के सहायक प्रबंधक श्री एम.पी.गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9928368821 पर अविलम्ब भिजवाने का श्रम करें।


(आर.के.शर्मा)
प्रबंध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि०, जयपुर

वार्षिक साधारण सभा

कार्यवाही विवरण दिनांक 28.09.2021

दिनांक 28.09.2021 को राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि०, जयपुर की वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की वार्षिक साधारण सभा की बैठक नेहरू सहकार भवन के प्रथम मंजिल स्थित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के मीटिंग हॉल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रातः 11:00 बजे वर्चुअल माध्यम से प्रारम्भ की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रशासक श्री विजय कुमार शर्मा ने की। सर्वप्रथम प्रबंध निदेशक आवासन संघ ने उपस्थित सदस्यों का आवासन संघ की ओर से स्वागत किया, तत्पश्चात् प्रशासक महोदय की अनुमति से सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम प्रशासक, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा अपने प्रशासकीय उद्बोधन में संघ के क्रियाकलापों तथा संघ का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया तत्पश्चात् प्रबंध निदेशक आवासन संघ ने बैठक का एजेन्डा बिन्दुवार माननीय सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया तथा तदनुसार आम सभा में निम्न निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव संख्या-1

गत बैठक दिनांक 24.02.2020 के कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार।

प्रस्ताव संख्या-2

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखों की पुष्टि।

प्रस्ताव संख्या-3

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक अंकेक्षण की आक्षेप पूर्ति का अवलोकन एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव संख्या-4

संघ द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021-22 की कार्य योजना का अनुमोदन।

निर्णय संख्या-1

बैठक दिनांक 24.02.2020 की कार्यवाही प्रबंध निदेशक द्वारा पढ़कर सुनाई गई, जिसकी सदन द्वारा सर्व सम्मति से पुष्टि की गई।

निर्णय संख्या-2

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के अंकेक्षित लेखें सदन के समक्ष रखे गये, जिनकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गई।

निर्णय संख्या-3

प्रबंध निदेशक द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के ऑडिट आक्षेपों की पैरावाइज पालना पढ़कर सुनाई गई। जिसकी सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

निर्णय संख्या-4

प्रबंध निदेशक द्वारा सदन के समक्ष वर्ष 2021-22 की कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें संघ स्तर से मुख्यमंत्री जन आवास योजना“ के अन्तर्गत आवास/फ्लैट्स निर्मित करने को प्राथमिकता प्रदान करने के बारे में अवगत कराया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जन आवास योजना“ के अन्तर्गत “राजीव गांधी सहकार जन आवास योजना“ के नाम से भरतपुर शहर में नवीन आवास योजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना के लिये नगर विकास न्यास, भरतपुर को संघ के प्रशासकीय निर्णयानुसार 20,000 वर्गमीटर भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के पास उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध अनुपयोगी भूमि पर संबंधित सहकारी संस्था के साथ मिलकर अथवा संस्था द्वारा संघ को भूमि उपलब्ध कराने पर संघ स्वयं के स्तर से आवासीय/व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित



है। बिल्डिंग मेटेरियल सेन्टर कार्य के अन्तर्गत यथा मार्बल, ग्रेनाईट, कोटा स्टोन आदि का व्यवसाय अन्य राज्यों के शीर्ष सहकारी आवासन संघों के साथ किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रबंध निदेशक द्वारा सदन को बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण उपरोक्त योजनाओं की क्रियान्विति सम्भव में विलम्ब हुआ है। अब पुनः उपरोक्त योजनाओं की क्रियान्विति किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। उपस्थित सदस्यों द्वारा वर्ष 2021-22 की कार्य योजनाओं की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या-5

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के बजट का अवलोकन एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव संख्या-6

गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 तक के खर्चों की पुष्टि।

प्रस्ताव संख्या-7

अन्य विषय अध्यक्ष/ प्रशासक महोदय की अनुमति से।

निर्णय संख्या-5

सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से बजट वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया एवं स्वीकृत किया गया।


निर्णय संख्या-6

सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 तक के खर्चों का अनुमोदन एवं पुष्टि की गई।

निर्णय संख्या-7

1. संघ द्वारा शहरी गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित ऋणों के अवधि की वसूली हेतु पूर्ववर्ती वर्षों में समिति/ सदस्य द्वारा उनकी ओर बकाया अवधिपार मूल + ब्याज का एक मुश्त चुकारा करने पर दण्डनीय ब्याज में शतप्रतिशत छूट प्रदान करने की "एक मुश्त समझौता योजना" लागू की जाती रही है, इसी क्रम में उक्त योजना पुनः लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया, जिसका सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2. मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर के प्रतिनिधि श्री रेखाराम मण्डीवाल द्वारा संघ कर्मचारियों को 6ठां वेतनमान देने का मामला सदन के समक्ष रखा गया, जिसके बारे में संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि संघ कर्मचारियों को 6ठां वेतनमान एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत करने से संबंधित प्रस्ताव रजिस्ट्रार महोदय को स्वीकृति हेतु पुनः भिजवाये गये है। श्री रेखाराम मण्डीवाल द्वारा आवासन संघ में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप कर्मचारियों की घटती संख्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए नये कर्मचारियों की भर्ती की बात रखी। इसके संबंध में संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि संघ में व्यवसाय के अनुरूप आवश्यकतानुसार इस सुझाव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

सभा के अन्त में संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा वर्चुअल उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं प्रशासक महोदय की अनुमति से सभा समाप्त की गई।


प्रबंध निदेशक


प्रशासक



Rajasthan State Cooperative Housing Federation Ltd. Jaipur
Income and Expenditure Account for the Year Ended March 31st ,2022

Figures previous Year 2020-2021	Expenses	Figures current Year 2021-2022	Figures previous Year 2020-2021	Income	Figures current Year 2021-2022
29000.00	To Annual Subscription to NCHF	34000.00	15000.00	By Administration Fee	42500.00
9261.76	To Bank Charges	4623.00	54502.00	By Commitment Charges	27566.00
51934.00	To Bonus	37257.00	-	By Dividend	9269.00
15518.00	To Car/Jeep Insurance	14981.00	45711.00	By Interest Recd.	143952.00
2804.00	To Cash & Safe Insurance	2804.00	8651338.88	By Interest Receivable on Housing Loan	7492872.72
9451.00	To Consumable Articles	6661.00	3186213.23	By Int. on FDR	3305658.00
136307.00	To Depreciation	104989.00	32654.00	By Lease Money	96971.00
44892.00	To EDLI.(P.F.) premium	56322.00	4245.00	By Penal Interest (GNSS)	-
13241.00	To Entertainment	6316.00	360914.00	By Penal Interest (Individual)	529656.00
54355.00	To Honorarium to Administrator	50968.00	141680.00	By Transfer Fees	207481.00
38530.00	To Interest on Deposit	-	24630.00	By Water Electricity Supply	-
23760.00	To Advertisement	-	42350.00	By Misc. Charges	61600.00
3450.00	To Liveries to Staff	3450.00	200.00	By Admission fee	200.00
116016.00	To Medical Reimbursement	113198.00	7516.00	By Vehicle facilities	10000.00
250908.00	To Office Maintenance	103995.00	81000.00	By Rent Received	81000.00
54448.00	To Petrol/Diesel Car Jeep	123056.00	-	By Int. on Income Tax Refund	92.00
2299.00	To Photo state	3404.00	7407.00	By Stationery	9341.00
2819.00	To Postage Exp.	913.00			
-	To General Body Meeting	9070.00			
348892.00	To Provident Fund	268792.00			
11980.00	To Repair Car/Jeep	41959.00			
-	To Provision for Gratuity	1300000.00			
5911099.00	To Salary to Staff	5323434.00			
60500.00	Professional Charges	115000.00			
9224.00	To T.A. & D.A.	53816.00			
29845.00	To Telephone Expenses	29100.00			
-	To Provision for 6 th Pay Salary	2258532.00			
3800000.00	To Provision for Bed debts	1000000.00			



Rajasthan State Cooperative Housing Federation Ltd., Jaipur

39246.00	To Pension Contribution	222579.00
18000.00	To Audit Fees	18000.00
82730.00	To Misc. Exp.	79556.00
-	Taxi on Hire	15533.00
953808.00	To GST/Service Tax	-
531043.35	Profit for the Year	615850.72

Jaipur 5th March 31st 2022

12655361.11	Grand Total	12018158.72	12655361.11	Grand Total	12018158.72
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------


Accountant/ Asstt. Manager


Managing Director


Administrator



08/06/2022



Rajasthan State Cooperative Housing Federation Ltd., Jaipur

Balance Sheet as on March, 31st, 2022

Figures for the Previous Year 2020-2021	Liabilities	Figures for the current Year 2021-2022	Figures for the Previous Year 2020-2021	Assets	Figures for the current Year 2021-2022	
	1. Share Capital authorized			1. Fixed Assets		
80000000.00	(i) 800000 Equity shares of Rs. 100/- each	<u>80000000.00</u>	49645.00	(i) Furniture & Fixture	44680.00	
	(ii) <u>Subscribed & paid up</u>		12153.00	(ii) Electric Fixtures	10938.00	
10860000.00	(a) State Government	10860000.00	219529.00	(iii) Office Building	197576.00	
14359422.00	(b) Member Coop. Housing Societies	<u>14355422.00</u>	25215422.00	(iv) Computers & Printers	29055.00	
	2. Reserves & Surplus		60537.00	(v) Bolero Vehicle 9566	51456.00	
1840667.75	(i) Reserve	1840667.75	252875.00	(vi) Car Vehicle	214944.00	
1089125.57	(ii) Building Fund	1089125.57	26186.00	(vii) Laptop	15712.00	
1007277.00	(iii) Bad & Doubtful	1007277.00	1528361.00	(viii) Land (Atru Scheme)	<u>1528361.00</u>	2092722.00
227136.66	(iv) Dividend Evaluation	227136.66		2. Fixed Deposit & Investment		
1372953.47	(v) Depreciation Reserves	1372953.47	648230.00	(i) P.D. A/c with state Govt. of Raj.	648230.00	
336991.47	(vi) Group Insurance Fund	336991.47	31000.00	(ii) Share with NCHF	31000.00	
37761.53	(vii) Karmachari Kalyan	37761.53	304000.00	(iii) Share with R SCB Ltd.	304000.00	
354100.00	(viii) Admission Fees	<u>354100.00</u>	91072.58	(iv) F.F.D. with IDBI Bank	-	
	3. Accumulated Profit		44005540.98	(v) F.D.R. with RSCB, NSB	50025581.99	
25478865.53	A. Previous Year	26009908.88	10733847.77	(vi) FDR With RSCB "C" Scheme	12355306.30	
531043.35	B. Profit During the year	615850.72	2952467.26	(vii) FDR with JCCB	3099546.72	
29950792.00	C. Profit & Loss Appropriation a/c	<u>29950792.00</u>	56576551.60		66463665.01	



4. Loan			
21388863.00	(i) Govt. of Rajasthan Against SC/ST Societies	<u>21388863.00</u>	21388863.00
5. Current Liabilities			
173478.10	(i) Share Application Money	173478.10	
3070902.00	(ii) Group Insu. Premium	3070902.00	
113659.00	(iii) Intt. Payable on deposit nominal Members	70593.00	
223263.01	(iv) Unadjusted Receipts	223263.01	
10888.75	(v) Sundry Creditors	10888.75	
6450.00	(vi) Nomination Fees (Board of Directors)	6450.00	
47195.50	(vii) Gratuity Payable	47195.50	
18945.00	(viii) Provison for Audit Fee	18945.00	
1395967.00	(ix) Gratuity Premium Payable LIC	2376459.00	
1116968.00	(x) JDA A/C	1116968.00	
21197694.00	(xi) Provision for 6 th pay Salary	23456226.00	
10531221.00	(xii) Vaidnathan payable to GSS	10531221.00	
56282.00	(xiii) IDBI Diff.	56282.00	
59194275.00	(xiv) Bad Debts	60194275.00	
1000000.00	(xv) Repair and Renovation	1000000.00	
-	(xvi) GST Input	14354.00	
	(xvii) Atru Scheme Regist.	<u>30000.00</u>	102397500.36
6. Individual Loan Scheme			
1016279.00	(i) Deposit (int. bearing)	912729.00	
124590.00	(ii) Amanata (Non Int. Bea.)	<u>123840.00</u>	1036569.00

3. Deposit & Advance			
107806.00	(i) FD Against Court case	107806.00	
4670.00	(ii) Food grains advances	4670.00	
25564.00	(iii) Vehicle Loan	25564.00	
15555.48	(iv) Advance to Staff	<u>15555.48</u>	153595.48
4. Interest Receivable from oth			
388223.00	(i) H.B.A. Loan	354695.00	
51188680.65	(ii) Individual & Coop. housing Society	<u>55450043.37</u>	55804738.37
5720.00	5. Security with P & T Depart.	<u>5720.00</u>	5720.00
6. Loan			
35003910.74	(i) Coop. Housing Society	35003910.74	
35844714.47	(ii) Individual (Nominal members)	<u>29382846.47</u>	64386757.21
7. Other Assets			
118546.55	(i) TDS	131613.55	
1473727.29	(ii) Group Link Insurance	1063637.29	
22300319.00	(iii) Receivable from Govt. of Raj.	<u>22300319.00</u>	23495569.84
8. Current Assets			
19604.00	(i) GST Input	-	-
9. Cash & Bank Balance			
35005.00	(a) Cash in hand	<u>33203.00</u>	33203.00



<u>7. Housing Scheme Creditors</u>		
239491.20	(i) Kishangarh Sch. Deposit	239491.20
106983.43	(ii) Bhankrota Sch. Deposit	106983.43
23963.00	(iii) Sahyog Aptt. Membership	23963.00
23500.15	(iv) Sahyog Aptt. Maintains	23500.15
179376.00	(v) Celling Fans for Sahyog appt	<u>179376.00</u>
		573313.78
<u>8. Suspense A/c</u>		
435697.00	(i) Suspense A/c	435697.00
79425.00	(ii) Suspance A/c Lalsot	79425.00
2200.00	(iii) Suspance A/c Dausa	2200.00
7977.00	(iv) Suspance A/c Nagore	<u>7977.00</u>
		525299.00


<u>(b) Cash at bank</u>		
681618.60	(i) Raj.State Coop.bank C. a/c 102	446340.60
128466.00	(ii) Nagure C.C. Bank Ltd	408838.00
56904.27	(iii) IDBI Bank	146055.85
15447.00	(iv) Udaipur C.C. bank Bhim	15447.00
12463.00	(v) Dausa C.C. bank Dausa	-
81105.00	(vi) Baran C.C.bank Atru	-
466935.50	(vii) SBI Jaipur	289088.50
292814.33	(viii) RSCB-C-SCHEME A/c 67	<u>237791.33</u>
		1543561.28

209231669.47

213979532.19

209231669.47

213979532.19


Accountant/ Asstt. Manager


Managing Director


Administrator


08/06/2022



संस्था का नाम— राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर
ऑडिट रिपोर्ट भाग 'अ' वर्ष 2021-22

आक्षेप

पूर्ति

1. हिस्सा राशि :-

आलोच्य वर्ष व गत वर्ष में हिस्सा पूंजी विवरण राज्य सरकार एवं सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

विवरण	2020-21	2021-22	कमी/वृद्धि
राज्य सरकार	10860000.00	10860000.00	0.00
सहकारी समितियाँ	14359422.00	14355422.00	(4000.00)
हिस्सा आवेदन राशि	173478.10	173478.10	0.00
योग	25392900.10	25388900.10	(4000.00)

- राज्य सरकार से 50.00 लाख रु. की हिस्सा राशि प्राप्त करने हेतु प्रशासकीय निर्णय लिया जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण रजिस्ट्रार महोदय को भिजवाया जा चुका है।

अधिकृत हिस्सा पूंजी पूर्वानुसार रु. 8,00,00,000/- ही है तथा जिन समितियों द्वारा पूर्ण ऋण का चुकारा कर दिया गया है उन्हें हिस्सा राशि वापस लौटा दी गई हैं। वर्ष 1994 के पश्चात् समितियों के माध्यम से ऋण वितरित नहीं किया गया है। संघ में राज्य सरकार एवं सहकारी समितियाँ सदस्य है। राज्य सरकार की अंश पूंजी गत वर्ष की तुलना में यथावत है, कोई कमी/वृद्धि नहीं हुई है। सदस्य समितियों की हिस्सा पूंजी में 4000.00 रु की कमी हुई है।

2. कोष व निधियाँ :-

संख्या	नाम कोष व निधियाँ	31.03.2021	31.03.2022	(कमी)/वृद्धि
1	Reserve	18,40,667.75	18,40,667.75	-
2	Building Fund	10,89,125.57	10,89,125.57	-
3	Bad and Doubtful	6,02,01,552.00	6,12,01,552.00	10,00,000.00
4	Dividend Evaluation	2,27,136.66	2,27,136.66	-
5	Depreciation Reserve	13,72,953.47	13,72,953.47	-
6	Group Insurance Fund	3,36,991.47	3,36,991.47	-
7	Karmachari Kalyan	37,761.53	37,761.53	-
8	Admission Fees	3,54,100.00	3,54,100.00	-
9	Gratuity premium payable LIC	13,95,967.00	23,76,459.00	9,80,492.00
10	Provision for VI th and VII th pay salary	2,11,97,694.00	2,34,56,226.00	22,58,532.00
11	Provision for audit fees	18,945.00	18,945.00	-
12	Vaidhnathan Amt.payable to GSS	1,05,31,221.00	1,05,31,221.00	-
13	Provision for IDBI Diff. Amt.	56,282.00	56,282.00	-
14	Accumulated Profit of prev. year	2,54,78,865.53	2,60,09,908.88	5,31,043.35
15	Profit during the year	5,31,043.35	6,15,850.72	84807.37
	Total	12,46,70,306.33	12,95,25,181.05	48,54,874.72



इस मद में तुलनात्मक विवरण के 31.03.2021 का योग 12,46,70,306.33 रु. है तथा 31.03.2022 का योग 12,95,25,181.05 रु. है तथा वृद्धि 48,54,874.72 रु. की हुई है।

- संघ द्वारा Reserve and Surplus को Raj Cop. Socieity Act की धारा 49 व नियम 56 एवं 57 के अनुसार Apex Bank या JCCB की शाखाओं में विनियोग किया गया है।
- Accumulated Profit A/c – हर वर्ष के लाभ से बढ़ता जाता है।

3. अमानते :-

आवासन संघ द्वारा अनिवार्य अमानते नहीं ली जाती है परन्तु सिक्क्योरिटी डिपोजिट के रूप में निर्धारित राशि अमानत के रूप में रखी जाती है। संघ द्वारा डिपोजिट में रूपये 9,12,729.00 एवं अमानत में रूपये 1,23,840.00 का दायित्व दर्शाया गया है। अमानत एवं डिपोजिट की सूची तैयार कर ली गई है। डिपोजिट पर देय ब्याज गत वर्ष 1,13,659.00 रु. था जो इस वर्ष 70,593.00 रु है।

4. बाह्य ऋण :-

गत दो वर्ष में बाह्य ऋणों के बकाया का विवरण निम्न प्रकार है:-

विवरण	2020-21	2021-22	अवधिपार
Govt. of Raj. (Ags Sc/St Socieities)	2,13,88,863.00	2,13,88,863.00	नहीं
Interest payable to LIC	-	-	-

राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया ऋण ब्याज मुक्त ऋण है तथा इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है।

5. गत तीन वर्षों का ऋण एवं ऋण वितरण :-

वर्ष	2019-20		2020-21		2021-22	
	लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण
अल्पकालीन	-	-	-	-	-	-
मध्यकालीन	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालीन	5,00,00,000	1,90,00,000	1,50,00,000	15,00,000	1,50,00,000	42,50,000
अन्य	-	-	-	-	-	-

संघ द्वारा संतुलन चित्र में कुल दिये ऋण का शेष 6,43,86,757.21 रूपये दर्शाया गया है। संघ द्वारा व्यक्तिवार ऋण बकाया की सूची तैयार कर ली गई है।

• कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

• कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

• कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

• कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

• कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

• कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।



मूलधन एवं बकाया ब्याज :

(रु. लाखों में)

वर्ष	2020-21						2021-22					
	मांग		वसूली		बकाया		मांग		वसूली		बकाया	
	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
अल्पकालीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्यकालीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालीन	476.82	288.73	74.13	43.20	402.69	245.53	474.54	276.95	70.35	32.31	404.19	244.64
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट: (i) उपरोक्त मांग रूपये 751.49 लाख वर्ष 2021-22 की है, जिसके विरुद्ध 102.66 रु की वसूली की गई है। अधिक वसूली के प्रयास किये जाने चाहिए।

- वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अवधिपार ऋणों की स्थिति मांग व बकाया से अवधिपार का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

(रु. लाखों में)

वर्ष	मांग	बकाया	प्रतिशत
2006-07	1,755.97	1,387.87	79.03
2007-08	1,678.57	1,236.67	73.67
2008-09	1,542.38	1,241.83	80.51
2009-10	1,549.30	1,254.70	80.98
2010-11	1,564.28	1,155.40	73.86
2011-12	1,446.69	1,159.70	80.16
2012-13	2,734.91	755.08	27.61
2013-14	941.81	759.67	80.66
2014-15	942.53	702.93	74.58
2015-16	878.98	692.29	78.77
2016-17	846.60	667.53	78.84
2017-18	808.40	660.82	81.74
2018-19	785.75	651.36	82.89
2019-20	772.22	649.51	84.11
2020-21	765.55	648.22	84.67
2021-22	751.49	648.83	86.34



बटटे संदेहात्मक कोष (Doubtful debts) :-

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	अवधि	व्यक्तिगत एवं बेबी ब्लैकेट		GNSS+GS		योग		
		असल	ब्याज	असल	ब्याज	असल	ब्याज	योग
1.	एक वर्ष पुराने	6.03	2.22	-	-	6.03	2.22	8.25
2.	दो वर्ष पुराने	2.86	1.30	-	-	2.86	1.30	4.16
3.	तीन वर्ष पुराने	2.15	0.85	-	-	2.15	0.85	3.00
4.	चार वर्ष पुराने	2.91	0.89	-	-	2.91	0.89	3.80
5.	पांच वर्ष पुराने	3.78	1.03	-	-	3.78	1.03	4.81
6.	छः वर्ष पुराने	36.42	21.35	350.04	217.00	386.46	238.35	624.81
	कुल	54.15	27.64	350.04	217.00	404.19	244.64	648.83

कोष के अपेक्षित प्रावधान की गणना :-

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	अवधि	असल	प्रतिशत	राशि	ब्याज 100%	योग
1.	अवमानक अस्तियां 1 से 3 वर्ष	11.04	10	1.10	4.37	5.47
2.	संदिग्ध अस्तियां 3 से 4 वर्ष	2.91	20	0.58	0.89	1.47
3.	संदिग्ध अस्तियां 4 से 5 वर्ष	3.78	30	1.13	1.03	2.16
4.	संदिग्ध अस्तियां 6 से अधिक	385.55	50	192.78	238.35	431.13
	कुल	403.28		195.59	244.64	440.23

संघ द्वारा अवधिपार ऋणों में बकाया ब्याज राशि को पृथक से प्रदर्शित किया गया है तथा ब्याज का शत प्रतिशत प्रावधान किया गया है।

8. लाभ हानि खाते पर टिप्पणी :-

वर्ष 2020-21 का शुद्ध लाभ 5,31,043.35 रुपये तथा 2021-22 वर्ष का शुद्ध लाभ 6,15,850.72 रुपये जो कि लाभ में रुपये 84807.37 की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

- आवासन संघ के द्वारा विभिन्न देय खर्चों के लिए वर्ष के दौरान प्रावधान बनाया गया है। लेकिन प्रावधान के लिए वास्तविक देय राशि की गणना नहीं की जाकर अनुमानित आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं।

- कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।



- सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है।

9. बजट :-

बजट की उपनियमानुसार स्वीकृत ले ली गई है तथा बजट से अधिक किये गये व्यय जिनकी सूची निम्नानुसार है तथा जिसकी स्वीकृति प्रशासक से ले ली गई है।

	मद	स्वीकृत राशि	खर्च की गई राशि	अधिक व्यय राशि
1	To Legal Fees	1,10,000.00	1,15,000.00	5,000.00
2	To Jeep/Car on Hire	10,000.00	15,533.00	5533.00
	Total Amount	1,20,000.00	1,30,533.00	10,533.00

लीगल व्यय में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक केस दायर होने के कारण तथा Jeep/Car on Hire में बिल्डिंग मैटेरियल व्यवसाय के संबंध में राज्य के बाहर यात्रा करने के कारण अधिक व्यय हुआ है।

इस प्रकार कुल 10,533/-रु. का अधिक व्यय हुआ, जिसकी स्वीकृति प्रशासक आवासन संघ से ले ली गई है। संघ द्वारा खर्च के समय बजट का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा बजट से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

10. अन्य टिप्पणी :-

1. **Non Operative Bank खाते**— संघ के पास बांरा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक अटरू खाते में जमा राशि को खाता बंद कर राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., शाखा नेहरू सहकार भवन में ट्रांसफर कर दी गई हैं तथा दौसा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शाखा दौसा का खाता भी बंद कर दिया गया है।
2. बैंको में जमा बताई गई राशियों का संबंधित बैंक के स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट्स बैलेंस सर्टिफिकेट से मिलान किया गया है। संघ द्वारा नियमित रूप से व्यवहार किये जाने वाले खातों का बैंक समाधान विवरण बनाया गया है।
3. संस्था में बहुत सी देनदारियों तथा लेनदारियों गत वर्षों से यथावत चली आ रही हैं। संघ के द्वारा ऐसी देनदारियों व लेनदारियों के संबंध में आवश्यक समायोजन या पुष्टि कर भुगतान शीघ्र किया जाना अपेक्षित है।
4. संस्था द्वारा विभिन्न संस्थाओं में विनियोग किया गया है। जाँच में पाया गया कि विनियोग किए गए राशि के हिस्सा प्रमाण पत्र संस्था में उपलब्ध नहीं है। एनसीएचएफ में विनियोग की राशि 31000.00 रु.



- कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
- सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
- कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
- सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- इस संबंध में बैंक को पूर्व में लिये गये पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं

का हिस्सा प्रमाण पत्र संस्था में उपलब्ध नहीं है तथा अपेक्स बैंक में संतुलन चित्रानुसार संस्था द्वारा 304000.00 रू0 के हिस्सा राशि खरीदी गई है लेकिन हिस्सा प्रमाण पत्र 310000.00 रू0 का पाया गया। अधिक राशि 6000.00 के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। परन्तु वस्तु स्थिति मालुम करने के लिए बैंक को दिनांक 12.10.2015 को पत्र लिखा गया है। उसके पश्चात् कोई पत्राचार के संदर्भ में नहीं किया गया है।

हुआ है, इस हेतु पुनः पत्र लिखकर कार्यवाही की जावेगी।

5. संस्था द्वारा एलआईसी के साथ ग्रुप ग्रेच्यूटी फण्ड बनाया गया है जिसमें गत वर्षों से संस्था द्वारा अंशदान दिया जा रहा है। परन्तु संस्था के खातों/वित्तीय विवरणों में इस फण्ड के शेष को प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा मिलान भी नहीं किया गया है। यह फण्ड आयकर विभाग के साथ पंजिकृत नहीं है। संस्था के खातों में ग्रेच्यूटी फण्ड के खातों को उचित प्रकार से प्रदर्शित किया जाना चाहिए व एलआईसी से स्टेटमेन्ट प्राप्त कर मिलान किया जाना चाहिए।
6. संघ द्वारा 31.03.2022 को दर्शाए गए स्थिति विवरण के अनुसार संस्था में कुल 20,92,722.00 रू0 की स्थायी सम्पत्ति है। संघ में स्थायी सम्पत्ति तथा डेड स्टॉक रजिस्टर का संधारण नियमित है। संस्था द्वारा सम्पत्तियों पर घिसावट का प्रावधान किया गया है घिसावट के प्रावधान की सूची वक्त ऑडिट उपलब्ध करवाई गई।
7. संस्था द्वारा विभिन्न न्यायालयों में चल रहे विवादों के संबंध में सूची उपलब्ध करवाई गई है जिसके अनुसार दिनांक 31.03.2022 को संस्था के 17 मामले न्यायालयों में चल रहे हैं। लेकिन संस्था की सूची के द्वारा संस्था पर सम्भावित वित्तीय जिम्मेदारी के बारे में सूचना नहीं दी गई है तथा संस्था द्वारा लेखा पुस्तकों में भी आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
8. वक्त ऑडिट पाया गया कि संघ द्वारा वार्षिक आयकर विवरणी आयकर विभाग के पास प्रस्तुत की जाती है। संघ द्वारा प्रति वर्ष आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर अंकेक्षण करवाया जाता है।

● सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है।

● कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

● अधिकांश प्रकरणों में वित्तीय जिम्मेदारी सम्भावित नहीं है, जिनमें है, उनके लिये यथा आवश्यक प्रावधान किया हुआ है।

● कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

11. विशेष विवरण एवं सुझाव :-

1. संघ के हिसाब की आंतरिक अंकेक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आर.सी.एस. द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए।
2. संघ की वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की साधारण सभा का आयोजन किया जा चुका है।

● इस संबंध में उचित कार्यवाही की जावेगी।

● कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।



3. संघ का व्यापार बढ़ाये जाने के लिए संस्था द्वारा प्रयास किये जाने चाहिए।

4. संघ के विभिन्न परिवाद भिन्न भिन्न न्यायालयो मे चल रहे है। उन पर प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए।


5. संघ के डैड स्टॉक का भौतिक सत्यापन वर्ष के अन्त मे प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए।

- संघ का व्यवसाय बढ़ाने हेतु संघ स्तर से मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत स्वतंत्र आवास /प्लॉट उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर विकास न्यास, भरतपुर से लगभग 20000 वर्गमीटर भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा अन्य राज्यों के शीर्ष आवासन संघों से मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन आदि बिल्डिंग मैटेरियल का व्यवसाय किये जाने के प्रयास किये गये है। निजी क्षेत्र के बिल्डर्स/डवलपर्स के साथ पीपीपी मोड पर आवासीय योजनाओं में प्लेट/आवास के विक्रय हेतु मार्केटिंग का कार्य किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- विभिन्न न्यायालयों में चल रहे परिवादों पर संघ द्वारा अधिवक्ता नियुक्त है तथा संघ स्तर से निरन्तर इन परिवादों पर निगरानी कर उचित कार्यवाही एवं पैरवी की जा रही है।

- सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है।




प्रबंधक
राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि.
जयपुर


प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि.

आवासन संघ की वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना

1. राजीव गांधी मुख्यमंत्री जन आवास योजना- राज्य के विकासोन्मुख शहरों एवं कस्बों में अल्प/निम्न आय वर्ग के परिवारों को आधुनिक एवं बेहतर आवासीय सुविधा उचित दर पर उपलब्ध कराने हेतु "राजीव गांधी मुख्यमंत्री सहकार आवास योजना" के नाम से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आवास/फ्लैट्स का निर्माण किया जावेगा। इसकी कडी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सम्मिलित भरतपुर शहर में आवासीय योजना का क्रियाव्ययन किया जाना है साथ ही अन्य शहरों/कस्बों का चयन कर इसी अनुरूप अन्य आवास योजनाएँ क्रियान्वित की जावेगी। उक्त योजना हेतु पूर्व में नगर विकास न्यास, भरतपुर में आवासन संघ को 6387.69 वर्गमीटर भूमि का आरक्षित दर (रु 7,700 प्रति वर्गमीटर) पर आवंटन किये जाने का प्रस्ताव संघ को भिजवाया गया था। संघ द्वारा पुनः प्रशासकीय निर्णय के अन्तर्गत नगर विकास न्यास, भरतपुर को उक्त योजना के लिये रियायती दर पर 20,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने संबंधी प्रस्ताव भिजवाया गया है।
2. पीपीपी मोड पर आवासीय योजनाओं/भूखण्डों के विपणन का कार्य-संघ के उपनियमानुसार राज्य के विभिन्न जिलों में पीपीपी मोड पर निजी क्षेत्र के बिल्डर्स/डवलपर्स के साथ विभिन्न आवासीय योजनाओं तथा भूखण्डों के विपणन का कार्य किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। लेकिन कोरोना महामारी के कारण उक्त प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं हो सकी। अब पुनः इस संबंध में बिल्डर्स/डवलपर्स से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
3. राज्य में विभिन्न स्थानों पर सहकारी संस्थाओं की अनुपयोगी भूमि पर संघ के स्वयं के स्तर पर एवं संबंधित संस्था के साथ मिलकर उसका आवासीय/व्यावसायिक उपयोग -संघ द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं की आवासीय/व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त भूमि पर संबंधित समिति के साथ संयुक्त रूप से अथवा स्वयं के स्तर पर योजना का क्रियाव्ययन किया जा सकता है। संघ द्वारा सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय खण्ड से व्यक्तिगत/पत्राचार के माध्यम से उनके क्षेत्राधिकार की जिन सहकारी संस्थाओं के पास भूमि उपलब्ध है, उनका विवरण भिजवाने का अनुरोध किया गया है।
4. राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा-स्टोन का विपणन संघ के माध्यम से अन्य राज्यों के शीर्ष सहकारी आवासन संघों के माध्यम से कराया जाना- संघ द्वारा पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (NCHF) के साथ संयुक्त तत्वाधान में राईसेम जयपुर में आयोजित कार्यशाला में अन्य राज्यों के शीर्ष सहकारी आवासन संघों के पदाधिकारियों से उक्त व्यवसाय के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई थी, जिस पर उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई। इसी क्रम में हरियाणा, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के आवास संघों के पदाधिकारियों द्वारा संघ से मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा-स्टोन आदि का व्यवसाय किये जाने के बारे में अवगत कराया गया था। अन्य आवास संघों से भी पुनः व्यक्तिगत चर्चा कर इस कार्य को प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।



THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE HOUSING FEDERATION LTD. JAIPUR
ESTIMATE OF REVENUE INCOME FOR THE YEAR 2022-23


(Rs. In lacs)

S No.	Particulars	Budget(P)
		2022-23
1	Margin on outstanding loan to Member Co-op-Societies @ 2.0% on Rs. 350.19 Lacs.	7.00
2	(I) Margin on outstanding loan to Individual Member @ 10.0% on Rs. 293.83 Lacs.	29.38
	(II) Margin on Advancement Rs. 150 Lacs @ 3.0%	4.50
3	Penal interest recoverable from Borrowing Societies and Individual & Baby Blanket Sch.	6.00
4	Interest on Deposit with RSCB bank & other Banks	30.00
5	Admn. Charges @ 1% and commitment charges & other charges	1.50
6	Lease Money	1.00
7	Interest earned on Deposit	0.50
8	Transfer Fees	1.50
Total		81.38


ESTIMATED PROFIT FOR THE YEAR 2022 -23

(Rs. In lacs)

Income	Expenditure	Profit
81.38	75.82	5.56


Accountant


Asstt. Manager


Managing Director


Administrator



**THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE HOUSING FEDERATION LTD. JAIPUR
ESTIMATE OF EXPENSES FOR THE YEAR 2021-22**

S No.	Particulars	Budget	Actual	Budget
		2021-22	2021-22	2022-23
<u>SALARY & ALLOWANCE</u>				
1	Salary to Staff	5500000.00	5323434.00	5000000.00
2	P.F. Contribution	550000.00	268792.00	500000.00
3	Honorarium to ADM	60000.00	50968.00	60000.00
4	Bonus to Staff	40000.00	37257.00	40000.00
5	Pension Contribution	400000.00	222579.00	300000.00
6	Medical Reimbursement	150000.00	113198.00	50000.00
7	T.A. & D.A.	60000.00	53816.00	60000.00
8	Group Gratuity Premium	500000.00	319937.00	400000.00
<u>OFFICE EXPENSES</u>				
1	Liveries	5000.00	3450.00	5000.00
2	Stationery & Printing	15000.00	12392.00	15000.00
3	Postage	5000.00	913.00	5000.00
4	Telephone	35000.00	29100.00	35000.00
5	Legal Expenses	110000.00	115000.00	100000.00
6	Petrol/Diesel & Repair of vehicle	170000.00	165015.00	150000.00
7	Repair to furniture & fixtures	3000.00	-	3000.00
8	Insurance of Vehicles	20000.00	14981.00	20000.00
9	Insurance of Cash safe & Transaction	3000.00	2804.00	3000.00
10	Audit Fees	20000.00	18000.00	20000.00
11	Conveyance Charges (Local)	3000.00	-	3000.00
12	Entertainment	15000.00	6316.00	10000.00
13	Newspaper & Magazine	10000.00	-	5000.00
14	Jeep Hire Charges	10000.00	15533.00	10000.00
15	Misc. Contigent Expenses	80000.00	79556.00	80000.00
16	Publicity & Promotion including loan Mela	5000.00	-	5000.00
17	Bank Commission	5000.00	4623.00	5000.00
18	Consumable Articles	10000.00	6661.00	10000.00
<u>MICELLANEOUS CHARGES</u>				
1	Annual Subscription to NCHF	35000.00	34000.00	35000.00
2	Annual Subscription to Coop. Union, Jaipur	1000.00	-	1000.00
3	Exhibition	5000.00	-	5000.00
4	Gift & Incentive Scheme	2000.00	-	2000.00
5	General Body Expenses	10000.00	9070.00	10000.00
6	Delegation Fess /Training	5000.00	-	5000.00
7	Depreciation	120000.00	104989.00	120000.00
8	Interest on Deposit of Member	50000.00	43066.00	50000.00
9	Office Maintenance (Electricity)	350000.00	103995.00	350000.00
10	Co-operative Week & Fair	5000.00	-	5000.00




THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE HOUSING FEDERATION LTD. JAIPUR
ESTIMATE OF EXPENSES FOR THE YEAR 2022-23

S No.	Particulars	Budget	Actual	Budget
		2021-22	2021-22	2022-23
11	Group Insurance (Members)	50000.00	-	50000.00
12	GST	50000.00	-	30000.00
13	Mise Expenditure (Atru Project)	25000.00	-	25000.00
Total		8492000.00	7159445.00	7582000.00


Accountant


Asstt. Manager


Managing Director


Administrator



THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE HOUSING FEDERATION LTD. JAIPUR
ESTIMATE OF CAPITAL EXPENDITURE FOR THE YEAR 2022-23

S No.	Particulars	Budget	Actual	Budget
		2021-22	2021-22	2022-23
1	Furniture & Fixture	30000.00	-	30000.00
2	Library Books	5000.00	-	5000.00
3	House Building Loan to Staff	200000.00	-	200000.00
4	Conveyance Loan to Staff	60000.00	-	60000.00
5	Computerization	50000.00	-	50000.00
Total		345000.00		345000.00

[Signature]
Accountant

[Signature]
Asstt. Manager

[Signature]
Managing Director

[Signature]
Administrator

